

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-शिवहर।

Mob No.-8986915416

Email ID-eerwdsheohar@gmail.com

पत्रांक:- 1301(अ१)/शिवहर

दिनांक:- 28/8/24

प्रेषक,

ई० चन्दन कुमार भार्गव,  
कार्यपालक अभियंता।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।


विषय :-MR (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018 के तहत पथ के अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि कार्य प्रमंडल-शिवहर के अंतर्गत MR (3054) New Maintenance Policy 2018 के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में समर्पित की जा रही है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
28/8/24  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, शिवहर।  
28.8.24 28/8/24 2024

FROM GER 19-A  
[ See Government of India's Decision (I) below reule-150]  
Form of Utilization Certificate for the month of up to August 2024

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in lacsRs.)	Amount Received (in lacsRs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 New Maintenance Policy 2018	BRRDA Lt. No. 86 Date- 24.07.2024	3372.83671/-	Certified that out of Rs-3372.83671 Lakh of grants in aid sanctioned during the Years-2024 in favour of Executive Engineer, RWD Works Division, Sheohar Rs-3098.60712 Lakh Has been utilized for the purpose of MR-3054 New Maintenance Policy 2018 schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs-274.22959 lakh remaining unutilized at the end of the period under report.
Total:-			3372.83671/-	


2. Certified that I have satisfied my self that conditions on which the grants -in- aid was sanctioned have been duly fulfilled /are beingfulfilled and I have ,exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercise.

- (i) Work have been supervised by of Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- (ii) periodical inspection has been conducted by of Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- (iii) Construction materials have been tested.
- (iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/  
Executive Engineer.

3 All other codal formalities.

- (i) Physical progress achieved.
- (ii) Construction of Road works.
- (iii) constructionof CD Works .

  
 28/08/24  
 Executive Engineer  
 R.W.D. Works Division,  
 Sheohar  
 28.8.24

**Requisition Format for Scheme Head-MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)**

Name of Works Division- RWD, Works Division-Sheohar.																		
Sli. No.	Package No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Length (in km)	Administrative Approval		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. Date	Date of Completion as per agreement	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in lakh)	Up to Date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	MIR-N/2019-20 Sheohar/01	Hiramma to Hiraua	31608102070	2199/08.07.2019	1.46	32.15000	14.11000	31.98747	10.75	MBD/MR/01 of 2019-20 27.04.2020	26.04.2021	3239.5	25	5%	0	0	26.00000	
	Total					32.15000	14.11000	31.98747	10.75000						0	0	26.00000	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
2. Up - to date Physical Progress has been uploaded in MIS.
3. Certificate enclosed

*23.08.2021*

Executive Engineer,  
RWD, Works Div. Sheohar  
*23.8.24*

Name of the Road - Hirma-Hirota  
Contractor Name-Parmar Enterprises Prop Sudha Singh

Length- 1.188 KM

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV	CATEGORY ROAD	IRI	Latitude	Longitude	Event
9/8/24	19:35:19	97	0.1	240	10.1	2400	2734 G	3.85	26.4488	85.29202	Normal	
9/8/24	19:36:08	97	0.1	260	10.1	2600	3086 G	4.13	26.44867	85.29301	Curve	
9/8/24	19:36:58	97	0.1	280	20.2	2800	3313 G	4.4	26.44864	85.29394	Normal	
9/8/24	19:37:28	97	0.1	290	20.2	2900	3426 G	4.53	26.44852	85.29493	Normal	
9/8/24	19:38:11	97	0.1	270	10.1	2700	3199 G	4.26	26.44907	85.29549	Curve	
9/8/24	19:38:55	97	0.1	290	20.2	2900	3426 G	4.53	26.44756	85.29658	Normal	
9/8/24	19:39:43	97	0.1	300	30.3	3000	3540 G	4.66	26.44708	85.29581	Normal	
9/8/24	19:40:19	97	0.1	290	20.2	2900	3426 G	4.53	26.44699	85.29498	Normal	
9/8/24	19:41:02	97	0.1	300	10.1	3000	3540 G	4.66	26.44613	85.29468	Curve	
9/8/24	19:41:48	97	0.1	260	10.1	2600	3086 G	4.13	26.44528	85.29448	Normal	
9/8/24	19:42:29	97	0.1	240	10.1	2400	2858 G	3.85	26.44554	85.29359	Normal	

IRI	35634
AVG. IRI	3239.5

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 2400$$

$$Y = 2858$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

<4000 4001-5000 >5001

*Parmar*  
28.08.2024  
2E

*B. Bhatnagar*  
28-08-2024  
AF

*28/08/24*  
*2E*



Name of Customer :	Parmer Enterprises Prop Sudha
Name of Work/ Road :	HIRMA - HIROTA
Lab Job number :	104
Date :	09-08-2024
Section No. :	97

Test Date :	09-08-2024	Road Name :	Parmer Enterprises Prop Sudha
Machine No :	423	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	HIRMA	Side :	
Start E No :	HIROTA	Interval	
Weather :	NORMAL	U/V Range :	1858 To 5000 1000 mm/km
Start Location :	0.0	Dist Range :	0 To 1.2 0.1 = 1000 m
End Location :	1.188	Equation :	$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$


Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\deli\Desktop\HIRMA-HIROTA\09081957 XIs, Section No. : 97, Eqn :  $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$   
 Name of Customer : Parmer Enterprises Prop Sudha Singh, Name of Work/ Road : HIRMA - HIROTA, Lab Job



*Parmer*  
 28-08-2024


B. bharadwaj  
 28-08-2024  
 AE


*28/08/24*  
 28/08/24


**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल शिवहर।**

**प्रमाण-पत्र**

विभागीय आदेशानुसार सत्यापित किया जाता है कि शीर्ष 3054 (नई अनुरक्षण नीति 2018) अंतर्गत हिरम्मा से हिरौता पथ निर्माण, प्रोजेक्ट आई०डी०-31608102070 का मरम्मत कार्य की जाँच 100 प्रतिशत संबंधित कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।

  
28.08.2024  
कनीय अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रशाखा, तरियानी।

  
28-08-2024  
सहायक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अवर प्रमंडल, तरियानी।

  
28/08/24  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, शिवहर।